**FINANCIAL EXPRESS** 

### SHREE WORSTEX LIMITED CIN: L17111DL1982PLC013790 Regd. Off.: 325, 3rd Floor, Aggarwal Plaza Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Email Id: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in, Website: www.shreeworstex.in

### NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Shree Worstex Limited is scheduled to be held on Friday, November 06, 2020 at the registered office of the Company at 04:00 P.M. at 325, 3rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 inter-alia, to consider and approve Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the guarter & half year ended September 30, 2020 and any other business with permission of

(www.shreeworstex.in) and website of exchange i.e. (www.bseindia.com) and (www.msei.in) For & on behalf of the Board

The information contained in this notice is also

available on the website of the Company

Shree Worstex Limited

Place: New Delhi Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265 Date: 29.10.2020

### ARCHIDPLY IMPROVINGE CONSTRO

### ARCHIDPLY INDUSTRIES LIMITED (CIN: L85110UR1995PLC008627)

Regd. Office: Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, Sidcul, Pant Nagar, Udham Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand- 263153 Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269 Cor. Office: 2/9, 1" floor, W.H.S. Kirti Nagar,

New Delhi - 110015 Phone: 011-45642555, Website: www.archidply.com Email: cs@archidply.com

### NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on November 06, 2020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter ended September 30, 2020. By order of the Board

Date: 29-October-2020 Atul Krishna Pandey Company Secretary

**QUASAR INDIA LIMITED** CIN: L67190DL1979PLC009555 Regd. Off.: 305, 3rd Floor, Aggarwal Plaza Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Email Id: quasarindia123@gmail.com, Website: www.quasarindia.in, Ph.: 9625304043

### NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Quasar India Limited is scheduled to be held on Monday. November 09, 2020 at 04:30 P.M at the registered office of the Company situated at 305, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, inter-alia, to consider and approve the Un-audited Standalone Financial Results of the Company for the Quarter and half year ended September 30, 2020 and any other business with the permission of chair if any.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company (www.quasarindia.in) and website of exchange i:e (www.bseindia.com)

For & on behalf of the Board Quasar India Limited Place: New Delhi Harish Kumar (Director) Date: 29.10.2020

### **NOTICE**

### HITACHI ABB

## ABB POWER PRODUCTS AND SYSTEMS INDIA LIMITED

CIN: L31904KA2019PLC121597

Registered Office: 8th Floor, Brigade Opus, 70/401, Kodigehalli Main Road, Bengaluru - 560 092. Ph No.: +91 80 2204 1800

Website: https://www.hitachiabb-powergrids.com/in/en

Email: in-investorhelpdesk appsil@hitachi-powergrids.com

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, November 10, 2020 inter alia, to take on record the Un-audited financial results for the guarter and period ended September 30, 2020 (Q3 FY2020).

Details are available at: https://www.hitachiabb-powergrids.com/in/en

By the order of the Board of Directors For ABB Power Products and Systems India Limited

Poovanna Ammatanda General Counsel & Company Secretary FCS-4741

Bengaluru, October 29, 2020

Regd. Office: 1 Kanpur Road, Allahabad- 211001

CIN: L26101UP1971PLC003491 Email: akd@triveniglassltd.com Website: www.triveniglassltd.com

Statement of Standalone Un-Audited financial results for the Quarter and half year ended 30th September, 2020

	Particulars	For the Quarter ended 30.09.2020	For the Quarter ended 30.06.2020	For the Quarter ended 30.09.2019	For the half year ended 30.09.2020	For the half year ended 30.09.2019	For the year ended 31.03.2020
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from operations	0.00	0.00	2142.47	0.00	3511.60	7171.66
2.	Net Profit/ (Loss) from ordinary activities before tax (after Extraordinary items)	7.34	-6.42	-169.71	0.92	-91.25	1556.66
3.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax, (after Extra-ordinary items)	7.34	-6.42	-169.71	0.92	-91.25	1556.66
4.	Paid-up equity share capital	1261.94	1261.94	1261.94	1261.94	1261.94	1261.94
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the balance sheet of previous year)	4404.00	4404.00	4404.00	4404.00	4404.00	4404.00
6.	Earnings per share (before extraordinary items)(not annualised) (a) Basic (b) Diluted	0.06 0.06	-0.05 -0.05			-0.72 -0.72	
7.	Earnings per share (after extraordinary items)(not annualised)						40.61
	(a) Basic (b) Diluted	0.06 0.06	-0.05 -0.05	-1.34 -1.34	0.01 0.01	-0.72 -0.72	12.34 12.34
Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Bombay Stock							

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and also on the website of the company (www.triveniglassItd.com).

Place: Prayagraj Date: 30.10.2020

Haq, ek behtar zindagi ka.

**Managing Director** 

DIN: 02591868 MUTUALFUNDS

## NOTICE

### HALF YEARLY FINANCIAL RESULTS OF SCHEMES OF UTI MUTUAL FUND FOR THE PERIOD ENDED SEPTEMBER 30, 2020

In line with regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Unaudited Half Yearly Financial Results for the schemes of UTI Mutual Fund for the period ended 30 September 2020,

Investors may view/download the results from our website

For UTI Asset Management Company Limited

have been hosted on our website www.utimf.com

Authorised Signatory

Mumbai

October 29, 2020

Toll Free No.: 1800 266 1230

Website: www.utimf.com

### The time to invest now is through - UTI SIP REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-U65991MH2002PLC137867) For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/INISM certified UTI Mutual

Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form. UTI-SIP is only an investment approach applied to various equity, debt and balanced schemes of UTI Mutual

Fund JUTI MFI and is not the name of a scheme / plan of UTI MF.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

### BlobalSpace GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMITED Registered Office: 605, 6th Floor, 8-Wing, Rupa Solitaire Building, Millennium Business Park, Navi Mumbai iane - 400710 Phone: 022-49452015 Email ld: investors@globalspace in

J.K. Agrawal

Website: www.globalspace.in CIN NO.: L64201MH2010PLC211219 Pursuant to Regulation 47 and other relevant provisions of SEBI

(Listing Obligations and Disclosures Requirements) 2015, notice s hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled on Saturday, November 07, 2020 through video conferencing inter alia to consider and approve Un-audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2020, along with Limited Review Report thereon. For further details you may refer the website of Stock Exchange riz. https://www.bseindia.com/ or website of company viz

www.globalspace.in. FOR GLOBALSPACE TECHNOLOGIES LIMITED

Company Secretary and Compliance office Membership No. A44529 Date: October 30,2020

Place: Navi Mumbai **DUROPLY INDUSTRIES LTD.** 

(Formerly: Sarda Plywood Industries Ltd.) Regd. Office: 9 Parsee Church Street, Kolkata-70000 CIN: L20211WB1957PLC023493,

www.duroply.in E-mail: corp@duroply.com Phone: 033 2265 2274 NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 o EBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the Compar vill be held on Wednesday, the 4th November 2020 at the Corporate Office o ne Company at 113 Park Street, Kolkata '00016, inter-alia, to consider and approve ne Unaudited Financial Results of the company for the quarter/half year ended 0th September 2020. The said notice may be accessed on the

Company's website at www.duroply.in and nay also be accessed on the Stock Exchange ebsite at www.bseindia.com For Duroply Industries Ltd.

[Formerly : Sarda Plywood Industries Ltd [R.K. MURARKA] Place : Kolkata CFO & Date: 29.10.2020 Company Secretary

## NOTICE

## **HSBC MUTUAL FUND**

## Disclosure of Unaudited Half-Yearly Financial Results of Schemes of HSBC Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the investors/unit holders of all the schemes of HSBC Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 59 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012, the Half Yearly unaudited financial results for all schemes of the Fund for the half year ended September 30, 2020, has been hosted on the Fund's website, www.assetmanagement.hsbc.co.in.

Unit holders are requested to take note of the same.

Applicants/Unit holders may contact our Investor Service Centres/their distributors, for any additional information/clarifications. Also, please visit our website for any other related information.

For & on behalf of HSBC Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to HSBC Mutual Fund)

Sd/-

Authorised Signatory Mumbai, October 29, 2020



financialexp.epapr.in

### Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HSBC Asset Management (India) Private Limited, 16, V.N. Road, Fort, Mumbai-400001. e-mail: hsbcmf@camsonline.com, website: www.assetmanagement.hsbc.co.in Issued by HSBC Asset Management (India) Private Limited

CIN-U74140MH2001PTC134220



Place: Vadodara

Date: 29 October, 2020

HSIL

OLTAMP

## **VOLTAMP TRANSFORMERS LIMITED**

CIN: L31100GJ1967PLC001437 Regd. Off.: Makarpura, Vadodara - 390014. Ph: 0265 3041403/480, Fax: 3041499 E-mail: vnm\_ipo@voltamptransformers.com Website: www.voltamptransformers.com

### NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, November 09, 2020 at the Registered Office of the Company inter-aila, to consider and approve the unaudited financial results for the Quarter & Half year ended September

This information is also available on the website of the Company at www.voltamptransformers.com and on website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com

For VOLTAMP TRANSFORMERS LIMITED Sanket Rathod

Company Secretary & Compliance Officcer

www.bseindia.com By order of the Board, Place: New Delhi Date: 29.10.2020

Sd/-Palak Narang (Company Secretary and Compliance Officer)

For Oswal Leasing Limited ACS 43749

OSWAL LEASING LIMITED

CIN: L65910DL1983PLC016036

Regd. Office: 105, Ashoka Estate

24, Barakhamba Road, New Delhi-110 001

E-mail: oswal leasing@owmnahar.com

Website: www.owmnahar.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that pursuant to

Regulation 47 read with Regulation 29 of the

SEBI (LODR), Regulations, 2015, a meeting of

the Board of Directors of the Company is

scheduled to be held on Wednesday, the 11th

Day of November, 2020 at 03:00 P.M. at the

Registered Office of the Company, inter alia, to

consider and approve the Un-Audited Financial

Results of the Company for the quarter and half

year ended September 30, 2020 and to take up

The said notice may be accessed on the

Company's website at www.owmnahar.com

and may also on the Stock Exchange website at

allied and other matters.

(Formerly Poddar Infrastructure Limited and before that Known as Transoceanic Properties Limited) Regd. Office: 208, Lalji Shopping Centre, S.V.Road, Borivali (West), Mumbai - 400092 Email :grievances@meghmayur.com Tel No: 022-28993841 CIN: L51900MH1981PLC025693 NOTICE

MEGH MAYUR INFRA LIMITED

Pursuant to provisions of Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing **Obligations and Disclosure Requirements** Regulations 2015, Notice is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 09th November, 2020 at 11.30 a.m. inter alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Second Quarter and half year ended on 30th September 2020 for the FY 2020 2021.

Mumbai Company Secretary and 30.10.2020 Compliance Officer

### SOMANY IMPRESA GROUP COMPANY

## **HSIL Limited**

Regd. Office: 2, Red Cross Place, Kolkata-700 001

Tel: 033-22487407/5668 | Website: www.hsilgroup.com Email: hsilinvestors@hsilgroup.com | CIN: L51433WB1960PLC024539









## STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2020

(₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	3 months ended 30 September 2020 (Unaudited)	6 months ended 30 September 2020 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended 30 September 2019 in the previous year (Unaudited)	Year ended 31 March 2020 (Audited)
1	Total income from operations	439.25	694.74	474.05	1879.37
2	Net profit from ordinary activities before tax	33.35	7.05	20.66	75.00
3	Net profit from ordinary activities after tax	36.47	19.12	14.98	48.42
4	Net profit for the period after tax (after extraordinary items)	36.47	19.12	14.98	48.42
5	Other comprehensive income / (expenditure) (net of tax)	(0.16)	(0.31)	(0.28)	(7.49)
6	Total comprehensive income	36.31	18.81	14.70	40.93
7	Equity share capital	14.46	14.46	14.46	14.46
8	Reserves (excluding revaluation reserve/business reconstrcution reserve) as shown in the audited balance Sheet of the previous year	**	*1	**	964.65
9	Earning per share (before extraordinary items) (of Rs. 2/- each) (not annualized) (a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.)	5.04 5.04	2.64 2.64	2.07 2.07	6.69 6.69
10	Earning per share (after extraordinary items) (of Rs.2/- each) (not annualized) (a) Basic (Rs.) (b) Diluted (Rs.)	5.04 5.04	2.64 2.64	2.07 2.07	6.69 6.69

(1) The Audit Committee has reviewed these results and the Board of Directors has approved the above results and its release at their respective meetings held on 28 October 2020 The statutory auditors of the Company have also carried out the limited review of the above results

(2) The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and half year ended 30 September 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and half year ended 30 September 2020 is available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.hsilgroup.com".

Place : Gurugram Sandip Somany Date : 28th October 2020 Vice Chairman and Managing Director

# **NEOGROWTH**

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Lending simplified. Growth amplified.

CIN No.-U51504MH1993PTC251544 Regd Office: 503, Tower 2B, One IndiaBulls Centre, 841 S.B. Marg, Mumbai-400013

**NeoGrowth Credit Pirivate Limited** 

## FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

0.23

1.07

**Particulars** September 30<sup>n</sup>, 2020 September 30", 2019 (Unaudited) (Unaudited) Total income from operations 171.76 155.10 Net Profit / (Loss) for the period before Tax 4.03 12.44 Net Profit / (Loss) for the period after Tax 3.21 1.59 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period 1.60 1.53 (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 10/- Per Share) 18.00 18.00 6. Reserves (excluding Revaluation Reserves) 323.57 323.31 7. 387.12 386.86 Net worth Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt 986.97 815.95 Outstanding Redeemable Preference Shares 45.55 45.55 10. Debt Equity Ratio 2.55 2.11 Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 1/- each) - Basic (Annualised) 1.78 0.85 Diluted (Annualised) 0.49 0.23 Capital Redemption Reserve Debenture Redemption Reserve 13.

Interest Service Coverage Ratio (ISCR) Net worth = Equity share capital + Other Equity Debt-equity Ratio = Total debt (Debt securities + Borrowings other than debt securities) / Net worth

1. The above is an extract of the detailed format of half year financial results filed with the Stock Exchanges in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations, 2015') and the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website.

 In accordance with the board approved moratorium and restructure policy read with the Reserve Bank of India (RBI) guidelines dated March 27, 2020, April 17, 2020, May 22, 2020 and August 6, 2020 relating to 'COVID-19 - Regulatory Package', the Company has granted moratorium upto six months on the payment of instalments falling due between March 1,

2020 and August 31, 2020 and / or restructure of loans to all standard account borrowers. Subsequently the Honourable Supreme Court passed an interim order dated September 3. 2020 not to categorise / declare any asset as Non Performing Asset (NPA) which is not categorised as NPA till August 31, 2020, Accordingly, the gross NPA as on September 30, 2020 has been arrived at by applying the Honourable Supreme Court interim ruling. The Company carries Expected Credit Loss (ECL) on standard assets of ₹119.27 crores including a Management Overlay of ₹55.01 crores against Assets Under Management of

number of management estimates and judgements. Given the dynamic and evolving nature of the pandemic, these estimates are subject to uncertainty and may be affected by the severity, duration of the pandemic and other variables."

4. The Government of India has issued a circular dated October 23, 2020 for grant of ex-gratia payment of difference between compound interest and simple interest for six months to

borrowers in specified loan accounts (March 1, 2020 to August 31, 2020) to financial institutions including Non Banking Financial Companies, the Company is in the process of assessing the impact of the same and accordingly no impact of the circular has been given in the financial results,

	September 30 <sup>th</sup> , 2020	March 31", 2020
Total Exposure		
SMA (SMA - 0) including zero DPD	604.95	1,272,80
Overdue - Standard	39.66	39.77
ECL Provision	644.61	1,312.57
SMA (SMA - 0) including zero DPD	75.72	74.43
Overdue - Standard	4.34	2.62
	80.06	77.05

Furt (2) Asset classification benefit extension

September 30", 2020	March 31 <sup>st</sup> , 2020
6,967	791
559.37	56.69
68.15	3.55

7. The Indian Parliament has approved the Code of Social Security, 2020 ('Code') which relates to the contributions by the Company towards Provident Fund and Gratuity The

8. Previous period / year figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to conform to the current period / year figures.

Dhruv Khaitan

Chairman

2. The above unaudited financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have approved by the Board of Directors at its meeting held on

14.

₹1,195.06 crores, as on September 30,2020, in accordance with Ind AS 109 requirements

The impact of COVID - 19 on business still remains uncertain. This uncertainty is reflected in the Company's assessment of impairment allowance on its loan which are subject to a

 Disclosures pursuant to RBI Notification - RBI/2019-20/220 DOR. No. BPBC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020. (1) SMA/overdue categories, where the moratorium/deferment was extended

lotal Exposure		la constant and a con
SMA (SMA - 0) including zero DPD	604.95	1,272.80
Overdue - Standard	39.66	39.77
ECL Provision	644.61	1,312.57
SMA (SMA - 0) including zero DPD	75.72	74.43
Overdue - Standard	4.34	2.62
	80.06	77.05
rther, during the period, the Company has also done one time restructuring of loa	ns amounting to ₹333.57 crores.	11000000
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		

Count of cases

effective date from which the changes are applicable is yet to be notified and the relevant rules are yet to be framed. In view of this, impact if any, of the changes will be assessed and

Date: October 29, 2020

Place: Mumbai

(t in Crores)

Half Year Ended

0.15

1.25

DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal repayment in next twelve months) ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

(f in Crores)

Total Exposure **ECL Provision** The Company operates in a single reportable segment i.e. financing, since the nature of the loans are exposed to operating under a single segment. The Company operates in a single geographical segment i.e. domestic.

On behalf of the Board of Directors

(? in Crores)

For MEGH MAYUR INFRALTD

Bijay Laxmi Singh



## दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड

दिल्ली ट्रांसको लि., रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम, द्वारा निम्न कार्यों के लिये दो भाग ख़ुली निविद (डीसीबी) में ऑन लाइन निविदा आमंत्रित हैं: **निविदा सं**. **T20R220201: 220** केवी बीटीपीएस सब-स्टेशन में 66 केवी जीआईएस सब स्टेशन (पैकेज'ए'), 400/220/66 केवी जीआईएस सब-स्टेशन द्वारका सेक्टर-5 मे 66 केवी जीआईएस सब-स्टेशन (पैकेज''बी'') तथा 400/220/66 केवी सब स्टेशन हर्ष विहार में 6 नग 66 केवी जीआईएस फीडर बेज (वर्तमान जीआईएस का विस्तार) के डिजायन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, ईरैक्शन, परीक्षण एवं प्रचालनारंभ सहित टर्न की आधार पर सम्पूर्ण सिविल कार्य एवं ऑटोमेशन। बोली जमा करने की अंतिम तिथिः 2.12.2020 के 1.30 अप. में। निविदा दस्तावेज तथा आगे विवरणों को डाउनलोड करने के लिये कृपया दिल्ली सरकार की वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in, निविदा आईडी सं. 2020 DTL 193191 1, सं. 2020 DTL 193268 1, एवं सं. 2020 DTL 193270 1 क्रमशः तथा डीटीएल की वेबसाईटः www.dtl.gov.in, युनिक नं. DTL 7940 291020 देखें।

पीआर/20-21/27

राक्त ।नावदा/ इ–ानावदाआ क ।लय सभा शुद्धपत्र/ संवधन/ संशाधना/ ।ताथ म ।वस्तार/ स्पष्टाकरण

## ARTEMIS

## आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेस लिमिटेड

CIN: L85110DL2004PLC126414 पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 14, सेक्टर 20, द्वारका, नई दिल्ली-110075 टेली.: 91-124-4807180.

> इमेलः investor@artemishospitals.com, वेबसाईटः www.artemishospital.com

सेबी (सचीयन दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 तथा 47 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 5 नवम्बर, 2020 (गरुवार) को आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के अलावे 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही/ छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा

सचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट www.artemishospitals.com तथा साथ ही स्टॉक क्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा www.nsein-

आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेस लिमिटेड के लिये

(देवलिना चक्रवर्ती)

प्रबंध निदेशक

## प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा ि भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)

विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] केवी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

⊢	Ti-ii	धित विवरण
L		
	. कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	केवी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
	. कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11.09.2012
L	. वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	<u></u>
L	. कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	
ı	प्रधान कार्यालय का पता	621/9, प्रथम तल, 18 क्वार्टर्स, विश्वास नगर, शाहदरा, ईस् दिल्ली-110032
6	. कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	28.10.2020
7	. दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	25.4.2021 (प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)

अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01006/ 2017-18/11657 9. बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का 304, टावर अपार्टमेन्ट, स्वास्थ्य विहार, नई दिल्ली-110092, ई पता एवं ईमेलः 10. अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये 203-204, जीवन बिल्ला, 2रा तल, गुरुद्वारा के निकट, 111 प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-110002, ई-मेल

cirp.kvd@gmail.com

11. दावे जमा करने की अंतिम तिथि 1.11.2020 अर्थात अंतरिम प्रस्ताव कर्मी की नियक्ति से 14 दि (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव आरंभ होने की तिथि अर्थात 28 अक्टूबर, 2020 को फाइनांसियल प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया क्रेडीटर के रूप में कॉर्पीरेट ऋणधारक के प्रति बकाया है।

13. किसी वर्ग में केडीटर्स के प्राधिकत प्रतिनिधि के रूप 1. श्री अनीश कमार संघी, IBBI पंजी, सं. IBBI/IPA में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी 001/IP-P01796/ 2019-2020/12786 प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम) 2. श्री गगन गुलाटी, IBBI पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP

N00893/ 2019-2020/12832 श्री प्रवीण कुमार सिंघल, IBBI पंजी. सं. IBBI/IPA 001/IP-P00514/ 2017-2018/10915 https://ibbi.gov.in/ (ख) प्राधिकत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है downloadform.html

ख) पताः https://ibbi.gov.in/ ips-register/view-ip/2 भौतिक पताः 1. आईबीबीआई, 7वां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट. कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001, 2. 2रा तल,, जीवन विहार बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 3. क्रम सं. 10 में दिये गये पते पर।

एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 28.10.2020 को मै. केवी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शरू करने का आदेश दिया है। एतदुद्वारा मै. केवी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि मद सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 11.11.2020 जो अंतरिम प्रस्ताव कर्मी की नियक्ति से चौदह दिन है, को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।

ये दावे ''प्रपत्र बी'' में ऑपरेशन क्रेडीटर, ''प्रपत्र सी'' में वित्तीय क्रेडीटर, ''प्रपत्र डी'' में कर्मियों या कर्मचारियों, 'प्रपत्र ई' में कर्मियों तथा कर्मचारियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा 'प्रपत्र एफ' में किसी अन्य स्टेकधारकों द्वारा भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 7, 8, 9 एवं 9 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रपत्रों में जमा की जा सकती है। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत. डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता।

तिथि: 29.10.2020

अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल IBBI/IPA-001/IP-P01006/2017-18/11657 स्थानः नई दिल्ली

## सुचना

## निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अन्तरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों तथा यथासंशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अन्तरण एवं वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के अनुसार जिन शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (७) वर्षों या इससे अधिक समय से लाभांश प्रदत्त या दावा नहीं किये गये उनके परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के इक्विटी शेयरों को कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (''प्राधिकरण'') के डीमैट खाते में अन्तरित करना अपेक्षित है। नियमों के अनुपालन में कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों के पास उनके पंजीकत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में व्यक्तिगत सुचनाएं भेज दी हैं और कथित सुचना उन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं हैं ताकि वे इन लाभांश(शों) का दावा कर सकें। यह सचना उनको सम्बोधित है जिनके शेयर उचित कार्यवाही करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान प्राधिकरण के पास अन्तरित करने योग्य हैं।

कम्पनी ने नाम, फोलियो नम्बर या डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी और प्राधिकरण के पास अन्तरण हेतु बकाये इक्विटी शेयरों सहित ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.smcindiaonline.com पर अपलोड कर दिया है। अप्रदत्त/अदावाकत लाभांश तथा प्राधिकरण के पास अन्तरित करने योग्य शेयरों के विवरण की पष्टि के लिए शेयरधारकों से कथित वेबसाइट का सन्दर्भ लेने का निवेदन किया जाता है।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले तथा जिनके शेयर प्राधिकरण को अन्तरित करने योग्य हैं वे सम्बद्ध शेयरधारक ध्यान दें कि कम्पनी कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कथित शेयरों को डीमैट प्रारूप में परिवर्तित करने हेतु मुल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी, तत्पश्चात कथित शेयर प्राधिकरण के पक्ष में अन्तरित हो जायेंगी। शेयरधारकों के नाम पर पंजीकत मल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। डीमैट प्रारूप में इक्विटी शेयरधारिता के मामले में कम्पनी प्राधिकरण के पक्ष में ऐसे शेयरों के अन्तरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से शेयरधारकों के सम्बद्ध डिपॉजिटरी को सचित

यदि कम्पनी को 22 नवम्बर, 2020 तक सम्बद्ध शेयरधारको से कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो नियमों के अनुपालन की दृष्टि से कम्पनी बिना कोई अन्य सुचना दिये ऐसे शेयरों को अन्तरित कर

प्राधिकरण को अन्तरित शेयरों के परिप्रेक्ष्य में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा हालांकि. ऐसे शेयरों पर समस्त लाभों. यदि कोई हो. सिहत अदावाकत लाभांश एवं प्राधिकरण के पास अन्तरित शेयरों का दावा नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करके सम्बद्ध शेयरधारकों द्वारा प्राधिकरण से किया जा सकता है।

उपर्यक्त मामले से सम्बन्धित किसी पछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, दरभाष नं.: 011-41410582. 93. 94. ई-मेल आईडी: delhi@linkintime.co.in.

वेबसाइट : www.linkintime.co.in से सम्पर्क करें। कृते एमएससी ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड

(सुमन कुमार)

ई.वी.पी. (कॉर्पोरेट मामले) एवं कम्पनी सचिव तिथि : 28 अक्टूबर, 2020

स्थान : नई दिल्ली

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन : L74899DL1994PLCO63609) पंजीकृत कार्यालय : 11/6B, शान्ति चैम्बर, पुसा रोड, नई दिल्ली-110005

दूरभाष : +91-11-30111000,407533331 फैक्स : +91-11-25754365 ई-मेल : smc@smcindiaonline.com I वेबसाइट : www.smcindiaonline.com



### Office of the Addi. Chief Engineer, PHED, Region Bharatpur Addendum No. 06, NIT Nos. 12 & 13/2020-21

Fallowing amendment in this office NIT Nos. 12 & 13/2020-21 are made as follows:

Up to 23-10-2020 (6.00 PM) Up to 03-11-2020 (6.00 PM) Last date & time for downloading of Bid Up to 23-10-2020 (6.00 PM) Up to 03-11-2020 (6.00 PM) Last date & time for online submission of Bid - Up to 23-10-2020 (6.00 PM) - Up to 03-11-2020 (6.00 PM) Online Opening of Pre-Qualification Bid 26-10-2020 (11.30 AM) 04-11-2020 (11.30 AM) UBN No.:

PHF2021WSBC04388 (Mukul Bhargava PHE2021WSRC04391 Addl. Chief Enginee DIPR/C/8547/2020 PHED, Region Bharatpu

#### केन्द्रीय भंडारण निगम (गारत रारकार का चपकग) इंजीनियरिंग सेक्शन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली

फोन : 22444370, ईमेल : eecwcdli@yahoo.co.in i. केमनि / हो.का.-दिल्ली / अभि.अनुभाग / प्रैस नोट / 2020-21 / 968 ई-टैंडर आमंत्रण प्रेस सुचना

केन्द्रीय भंडारण निगम अनुमोदित ठेकेदारों के उपयुक्त वर्ग से निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन निविदाए आमंत्रित करता है। अनुमानित लागत क्र. कार्य का नाम ऑनलाईन निविदाए

(लाख रूपये में) भेजने की अंतिम तिथि सैन्ट्रल वेयरहाउस, आर.पी. बाग, दिल्ली के आग से प्रभावित गोदाम सं. 2 का पूर्निमाण। को 15:00 बजे तक नुकंत की शर्ते और ई-टेंडर आमंत्रण सुधना सहित विस्तृत टेंडर सुधना निगम की वेबसाइट www.cwceprocure.com/CWC अथवा www.cewacor.nic.in या www.tenderhome.com से देखी और

अधिशासी अभियंता जन जन क लिए भण्डारण

## OSBI

प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-। विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

### शुद्धिपत्र-2

कृपया ओपेक्स आधार पर एंटरप्राइज़ बल्क ईमेल सोल्यूशन के प्रापण, क्रियान्वयन और देखभाल के लिए प्रस्ताव हेत् निवेदन (आरएफपी), दिनांक 25 सितंबर 2020 का संदर्भ लें शुद्धिपत्र-2 एवं बोली-पूर्व पूछताछों पर बँक की प्रतिक्रिया अपलोड की गई है और उसे बँक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर प्रोक्योरमेंट न्यूज़ के अंतर्गत देखा जा सकता है बोलियाँ जमा करने का अंतिम दिनांक और समय: 6 नवंबर 2020 को शाम 4.00 बजे तक

उप महाप्रबंधक (प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-1)

**3** 

BHARAT NIDHI LIMITED Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002, Phone No. 011-43562982,

E-Mail ID:-bharatnidhi1@gmail.com CIN No.U51396DL1942PLC000644 NOTICE is hereby given that the following Shareholder of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost her Share Certificate and application has been made to the Company by her to issue duplicate

Name of the Shareholder Father/ Husband's Name No. of Shares held Folio No. Ms. Surjit Kaur Nagpal Mr. Satnam Singh Hitkari Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice; else the Company will proceed to issue duplicate certificate without further For Bharat Nidhi Limited

पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नवी मंबई

Place: New Delhi

Date: October 28, 2020

दिनांक: 30.10.2020



Company Secretary

सामान्य सेवाएँ प्रशासन प्रभाग प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. ४, सेक्टर – 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 hogad@pnb.co.in; hoinsurance@pnb.co.in

### साइबर जोखिम बीमा पॉलिसी के लिए बोलियाँ प्रेषित करने के लिए सूचना

पंजाब नैशनल बैंक, भारत की पंजीकृत सामान्य बीमा कंपनियों से साइबर जोखिम बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर सीलबंद बोलियां आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/

इच्छक सामान्य बीमा कंपनियां अपनी बोलियाँ 19 नवंबर 2020 को अप० 3:00 बजे तक या इससे पहले मुख्य प्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवाएँ प्रशासन

प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लाट सं. ४, सेक्टर – १०, द्वारका, नई दिल्ली – ११००७५ को उपर्युक्त के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र / विस्तार की तिथि / स्पष्टीकरण केवल हमारी

वेबसाइट https://www.pnbindia.in पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छ्क बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है। मुख्य प्रबंधक

पंकज नारंग

(011 - 28044751)फेडरल बेक

नर्ड दिल्ली / कनॉट सर्कस शाखा एम-17. कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार फोन: +91-11-49576299/49785701 पंजी. कार्यालयः अलवाये. केरल प्रस्तावित बंधक के सम्बन्ध में सचना

'हम एतदुद्वारा यह सार्वजनिक सचना देते हैं कि हम ऋण प्राप्त करने के लिये टाइटल डीडर-जमा कर गिरवी द्वारा प्रतिभित के रूप में श्रीमती नीति आर्य तथा श्री वरुण आर्य के पक्ष में बक नं. 1, वॉल 22973, पेज 184 से 192 में बिक्री प्रलेख सं. 10984 तिथि 23.11.2016 के माध्यम से री-सर्वे नं. सी-116, ब्लॉक-सी, प्लॉट नं. 116, तीसरा तल, बसई दारा पुर गांव, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 में शामिल सम्पत्ति, छत के अधिकार के साथ, जिसका विस्तार 300 वर्ग यार्डस है, को स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा हमारे पास प्रतिनिधित्व किया गया है कि उनके टाइटल डीडस के पूर्व का मूल डीडस अर्थात श्री भरत मेहता तथा श्री नरेन्दर कुमार अरोडा के पक्ष में उप रजिस्ट्रार कार्यालय एसआर-II, जनकपुरी, नई दिल्ली में बुक नं. 1, वॉल नं. 20849 पेज 178 से 184 तिथि 20.04.2013 में दस्तावेज सं. 8233 के रूप में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तथा श्री भरत मेहता तथा श्री गगन दीप अरोडा के पक्ष में उप रजिस्ट्रार कार्यालय एसआर-II जनकपुरी, नई दिल्ली कार्यालय में पंजीकृत बिक्री प्रलेख सं. 8242, बुक नं. 1, वॉल नं. 20850, पेज 57-62 तिथि 20.04.2013 तथा श्री करतार सिंह, पुत्र अछर सिंह, निवासी सी-116, कीर्ति नगर, नई दिल्ली द्वारा बिल तिथि 28.06.2006 अनजाने में गम हो गया है। अतः हम डिपॉजिट के लिये हम उक्त सम्पत्ति के संदर्भ में उक्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति स्वीकार करने का प्रस्ताव करते हैं। यदि किसी उक्त सम्पत्ति के प्रति किसी प्रकार का कोई दावा हो, वे इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर हमें उसकी सुचना दें अन्यथा यह माना जायेगा कि उक्त सम्पत्ति पर कोई विद्यमान अधिभार नहीं है।"

दिनांक: 28.10.2020 स्थानः नई दिल्ली

शाखा प्रमुख, दि फेडरल बैंक लि.



### कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण निर्माण खण्ड-पंचम, ई.पी.आई.पी, शास्त्रीपुरम, आगरा ई-निविदा सुबना

एतद द्वारा सचित किया जाता है कि जनपद झांसी के औद्योगिक क्षेत्र बिजौली, झांसी मे Desilting of Nala at I.A. Bijauli, Jhansi का कार्य लागत रू० 10.18 / — लाख एव मथुरा के औद्योगिक क्षेत्र कोसी कोटवन में Providing and fixing Barbed wire fencing between Boundary of Industrial Area and Village Kotwan & Navipur at I.A. Kosi Kotwan Distt.-Mathura कार्य लागत रू० 20.85 लाख जिसके लिए सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / निकायों / प्राधिकरणों / परिषदों एवं निकायों में 'बी' एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत फर्मों / ठेकेदारों से ई-निविदायें आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 06.11.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 19.11.2020 को सायं 5:00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं. जिन्हें दिनांक 20.11.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे खोला जायेगा। निविदा दाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मूल प्रतियाँ दिनांक 19.11.2020 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट www.upsidc.com पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की website :https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) निर्माण खण्ड-पंचम, आगरा

## Paramount Communications Ltd. CIN: L74899DL1994PLC061295

PARAMOUNT CABLES Regd. Office: Paramount House, C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 Ph.: +91-11-45618800-900, Fax: +91-11-25893719/20

### E-mail: pcl@paramountcables.com, Website: www.paramountcables.com NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered office of the Company at C-125, Naraina Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110028 on Saturday, 7th November, 2020 at 04:00 P.M., to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2020.

Arrangement has also been made for participation of Board Members electronically through video-conferencing facility.

The information contained in this Notice is also available on the website of the company i.e. www.paramountcables.com and the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Paramount Communications Ltd. Sd/-

Place: New Delhi Date: 29.10.2020

(Rashi Goel) Compliance Officer & Company Secretary

GOOD YEAR

गुडइयर इंडिया लिमिटेड (सीआईएन: L25111HR1961PLC008578)

पंजीकृत कार्यालयः मथुरा रोड, बल्लभगढ़ (जिला फरीदाबाद) -121004, हरियाणा, भारत टेलीफोनः 0129-6611000, फैक्सः 0129-2305310 ई-मेलः goodyearindia\_investorcell@goodyear.com वेबसाइटः www.goodyear.co.in

1.सेबी (सूचीकरण, बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 29 तथा 47 के अनुसरण में एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि गुडड्यर इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 06 नवंबर, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 सितंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का अनुमोदन

2.इस सूचना में निहित जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.goodyear.co.in/investorrelations के साथ-साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

तारीखः २९ अक्टूबर, २०२० स्थानः नई दिल्ली

सोनाली खन्ना हेड-लीगल, अनुपालन एवं कंपनी सचिव

गुडइयर इंडिया लिमिटेड के लिए

वैभव ग्लोबल लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय: के-6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपर-302004 फोन : 91-141-2601020: फैक्स : 91-141-2605077: CIN : L36911RJ1989PLC004945 ई-मेल : investor\_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

द्वितीय अंतरिम लाभांश के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना एतदहारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधानों व इसके तहत बनाये गये नियमों एवं सेबी विनियमों के अनुसार सुचित किया जाता है कि गुरूवार, 29 अक्टूबर, 2020 को आयोजित

बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा विलीय वर्ष 2020-21 हेतु घोषित द्वितीय अंतरिम लाभांश के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि शनिवार, 7 नवम्बर, 2020 होगी। उपरोक्त अंतरिम लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जमा / प्रेषित किया जाएगा। संबी ने निर्धारित किया है कि सभी सुचीबद्ध कंपनियां शेयर धारकों को भुगतान करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष भगतान, एनईएफटी, आरटीजीएस, 'पेयबल-एट-पार' वारंट्स∕ चैक्स इत्यादि के भगतान के लिए

अनुमोदित माध्यम का उपयोग करेगी। सभी शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे तरन्त अपने बैंक खाता संख्या को कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपडेट करें। समय पर सचना प्राप्त करने के लिए कपया अपनी नवीनतम ई-मेल आईडी को कंपनी/ डिपॉजिटरी

प्रतिभागी के साथ पंजीकत करें। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.vaibhavglobal.com और स्टॉक एक्सचेज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कते वैभव ग्लोबल लिमिटेड स्थान : जयप्र दिनांक : 29 अक्टूबर, 2020 स्शील शर्मा ( कंपनी संचिव ) यह सुचना अंग्रेजी प्रारूप का रूपांतरण है। FCS: 6535

Regd. Office: 612, Devika Tower, 6th floor, 6, Nehru Place, New Delhi-110019 **CIN**: L51909DL2005PLC135119 E-mail: shriharshraizada@gmail.com **Tel/Fax:** +91-11-26219944

NOTICE Notice is hereby given that Pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement, a meeting of the Board o Directors of the Company will be held on Tuesday the 10th November, 2020 at 4.30 p.m. at its Registere Office to consider and take on record Un-audite Financial Results of the Company for the guarter & half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020.

For Marktesh Trading Ltd. Place: New Delhi A. Bajoria Date: 29.10.2020

#### स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटेड रीकृत कार्यालय : नई कवी नगर, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद-201001 (युपी) CIN: L25209UP1970PLC003320

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वे और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 वं विनियम 47(1) (ए) अनुसरण में एतत्द्वारा सूचना व जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 9 नवम्बर, 2020 को दिल्ली में होगी, जिसमें कम्पनी के 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही और अर्द्धवार्षिकी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार कर अनमोदित किया जायेगा।

स्वदेशी पॉलीटेक्स लिमिटे सरभी बसंतार्न स्थानः गाजियाबाद दिनाँकः 29 अक्टूबर, 2020 (कम्पनी सचिव

OSWAL LEASING LIMITED CIN: L65910DL1983PLC016036 Regd. Office: 105, Ashoka Estate

24, Barakhamba Road, New Delhi-110 001 E-mail: oswal leasing@owmnahar.com Website: www.owmnahar.com

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (LODR), Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 11th Day of November, 2020 at 03:00 P.M. at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020 and to take up allied and other matters.

The said notice may be accessed on the Company's website at www.owmnahar.com and may also on the Stock Exchange website at www.bseindia.com

Place: New Delhi Date: 29.10.2020 Palak Narang (Company Secretary and Compliance Officer) ACS 43749

For Oswal Leasing Limited

जैन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड मुख्य कार्यालय : 80, दरियागंज, नई दिल्ली-110002 दरभाष: 011-023256884. 011-23281827

कब्जा सूचना (नियम-8(1) धारा 13(4) के साथ पठित

जैसा कि. अधोहस्ताक्षरी ने जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते वित्तीय वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं प्रवर्तन तथा प्रतिभृति हित (द्वितीय) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार **मैसर्स अंसन केमिकल कम्पनी, प्रोपराइटर श्री संदीप अग्रवा**ल तथा बंधककर्ता श्रीमती अनुराधा अग्रवाल से कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु 38,37,163.24 (रुपये अड़तीस लाख सैंतीस हजार एक सौ तिरेसठ एवं चौबीस पैसे मात्र) का भूगतान करने को कहते हुए 1.10.2010 को माँग सचना निर्गत की थी।

कर्जदार के पूर्ण राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित 1 (अधिनियम) की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 28 अक्टूबर, 2020 को कब्जा कर लिया है।

कर्जदारों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को कथित सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार रु. 38.37.163.24 (रुपये अडतीस लाख सैंतीस हजार एक सौ तिरेसठ एवं चौबीस पैसे मात्र) एवं इस पर ब्याज तथा अन्य विधिक प्रभारों के लिए जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

बिल्ट-अप सम्पत्ति सं. 4/2404, प्लॉट सं. आर-26-सी पर निर्मित, भूमि क्षेत्रफल माप 41.80 वर्ग मीटर (अर्थात 50 वर्ग गज) तथा इसकी सम्पूर्ण संरचना, खसरा नं. 636/412 में से, बिहारी कॉलोनी आबादी में स्थित, ग्राम उल्धानपुर क्षेत्र में, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032

तिथि : 28.10.2020 जैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड स्थान : दिल्ली

## (V) VAIBHAV GLOBAL LIMITED Rend. Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004;

Tel:-91-141-2601020; Fax: 91-141-2605077; CIN: L36911RJ1989PLC004945; E-Mail: investor\_relations@vaibhavglobal.com; Website : www.vaibhavglobal.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2020

	(₹ in lacs, unless otherwise state						
		Consolidated					
S. No.	Particulars	Quarte	Half Year Ended				
	Particulars	30.09.2020 (Unaudited)	30.09.2019 (Unaudited)	30.09.2020 (Unaudited)			
36							
11	Total Income from Operations (Net)	59,878.67	48,519.20	1,14,922.46			
2	Other Income	305.76	324.31	714.18			
3	Total Income	60,184.43	48,843.51	1,15,636.64			
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	8,914.70	6,093.66	15,610.17			
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	8,914.70	6,093.66	15,610.17			
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	7,055.50	4,895.28	12,343.00			
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period		1000000	11000000			
100	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,269.47	5,034.70	11,884.03			
8	Equity Share Capital	3,242.74	3,253.33	3,242.74			
9	Earnings Per Share (of ₹ 10 each) (for continuing and discontinued operations)		500000000000				
	i) Basic EPS	21.82	14.97	38.17			

## ii) Diluted EPS

Notes: The above unaudited consolidated financial results for the guarter ended 30° September, 2020 and year to date for the period from 01" April, 2020 to 30" September, 2020 have been reviewed by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their

21.33

14.50

37.31

- respective meetings held on 29" October, 2020. These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.
- Current tax includes minimum alternate tax (MAT) and deferred tax includes MAT credit entitlement Key numbers of standalone financial results of the Parent Company, i.e., Vaibhay Global Limited are as under

{ ₹ in lacs, unless otherwise sta				
Particulars	Quarte	Half Year Ended		
		30.09.2019	30.09.2020	
		(Unaudited)	(Unaudited)	
Total Income	12,172.06	10,886.39	19,878.85	
Profit before tax	1,462.00	975.04	1,420.15	
Total Comprehensive Income	1,322.66	770.05	1,296.92	

The unaudited consolidated financial results include the financial results of the Parent Company and the financial results of the following

subsidiaries and step down subsidiaries (collectively referred as 'the Group'): A. VGL Retail Ventures Limited, Mauritius (formerly Genoa Jewelers Ltd)

a. Shop TJC Limited, UK (formerly The Jewellery Channel Limited) i. Shop LC Global Inc., USA

B. STS Gems Limited, Hong Kong a. Pt. STS Bali, Indonesia

b. STS (Guangzhou) Trading Limited, China

C. STS Jewels Inc. USA D. STS Gems Thai Limited, Thailand

E. STS Gems Limited, Japan

Place: Austin

Date: 29th October 2020

The Company has allotted 65,045 and 152,287 equity shares of ₹ 10/- each for the quarter ended 30" September, 2020 and year to date for the period from 1" April, 2020 to 30" September, 2020 respectively, under the Company's Employees Stock Option Scheme-2006 (As Amended) through Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust at exercise price ranging from ₹ 126.35 – ₹ 752.60.

Item exceeding 10% of total expenditure (included in other expenses - administrative and selling expenses)

(₹ in lacs, unless otherwise stated) **Quarter Ended** Half Year Ended **Particulars** 30.09.2020 30.09.2019 30.09.2020 5,434.83 5.248.83 Content and Broadcasting expenses 11.008.34

8 In earlier years, the Parent Company had received a notice from the Income Tax Department under Section 148 of the Income Tax Act, 1961. Honorable High Court had granted stay order on the Company's petition. Based upon the nature and external expert opinion. obtained by the Company, the management does not expect any liability to arise out of it. 9 The Board of Directors of the Parent Company had declared interim dividend of ₹ 5/- per fully paid up equity share of ₹ 10/- each. The

Company has fixed 7th November 2020 as the 'record date' for payment of interim dividend on equity shares for the financial year 2020 -21. The said interim dividend will be credited / dispatched to the respective equity shareholders within 30 days of the declaration of dividend. In addition to the above interim dividend of ₹ 5/-, an interim dividend of ₹ 5/- per share i.e. 50% on equity share capital was declared and paid during the current quarter. Hence total dividend of ₹ 10/- has been declared during the current year. In previous quarter, Shop LC in USA has availed USD 48.07 lacs (₹ 3,536.46 lacs) at 1% interest under Paycheck Protection Program

('PPP') of US Small Business Administration (SBA) under CARES Act of USA. Under SBA guidelines, this can be forgiven subject to conditions, pending which it is classified as borrowings. 11 Group operates in single business segment i.e. Fashion Jewellery and Life Style Products.

12 Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing

Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.vaibhavglobal.com. For and on behalf of the Board of Directors

> Sunil Agrawal Managing Director

क्वासर इंडिया लिमिटेड CIN: L67190DL1979PLC009555 पंजी. कार्यालय: 305, 3रा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ईमेल आईडी: quasarindia123@gmail.com वेबसाईटः www.quasarindia.in

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक सोमवार, 9 नवम्बर, 2020 को 2.00 को 4.30 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 305, 3रा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन परिणामों तथा

अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात (www.quasarindia.in) तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं। बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

क्वासर इंडिया लिमिटेड के लिये हरीश कमार (निदेशक स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 29.10.2020

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 किम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

DIN: 02591868

30 के अनुसरण में} केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

इम्पीरिया लाइफ साईंसिस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U45100DL2013PTC248620) जिसका पंजीकृत कार्यालयः ई -250, तीसरी मंजिल, ग्रे टर कैंलाश—।, नई दिल्ली —110048 में हैं के मामले में ....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**" से **'गुजराज राज्य'** में स्थानांतरित करने के लेए 26 अक्टूबर, 2020 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम झापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो

वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जेसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का **हारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय** नेदेशक को इस सचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली— ११०००३ पर पंजीकत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें। ई —250, तीसरी मंजिल, ग्रेटर कैलाश—1, नई दिल्ली-110048 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से

इम्पीरिया लाइफ साईंसिस प्राइवेट लिमिटेड दिनांक: 30.10.2020 रौनक दोशी स्रेंद्र (निदेशक) ढीआई एन: 06848601 स्थानः नई दिल्ली

श्री वर्सटेक्स लिमिटेड CIN: L17111DL1982PLC013790 पंजी. कार्यालय: 325, 3रा तल, अग्रवाल प्लाजा सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ईमेल आईडी: shreeworstex@gmail.com, info@shreeworstex.in वेबसाईटः www.shreeworstex.in

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 6 नवम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 325, 3रा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन परिणामों तथ अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे। इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट

( www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं। बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से

तिथि: 29.10.2020 DIN: 00749265 केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष

जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल एसएसएस टॉवर, टॉवर ए, सेक्टर-38, गुरुग्राम हरियाणा-122001 पर है। एतद्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी 03.10.2020 को आयोजित कम्पनी की असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प वे

पष्टि वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मामले मं

का प्रस्ताव करती है ताकि कम्पनी अपने पंजीकत कार्यालय को ''हरियाणा राज्य'' से ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' में स्थानान्तरित करन सक्षम हो सके। कोई व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित स्थानान्तरण रं प्रभावित होना सम्भावित है वह अपने हित की प्रकृति तथा विरोध के आधारों का उल्लेख करते हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110 003 के पास इस सूचना के प्रकाशन

स्थानः गुरुग्राम

तिथि: 29.10.2020

मीनू पर्ती

निदेशक

डीआईएनः ०००१४३०९

स्काई बॉक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पूर्व में स्मार्ट कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड विदित) CIN: L74899DL1994PLC059877 पंजी. कार्यालय: 325, 3रा तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 Phone: 9810260127

सेबी (सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन. 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 11 नवम्बर, 2020 को 4.00 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मे आयोजित होगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 30 सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय, यदि कोई हो, पर विचार तथ

इस सूचना में शामिल जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात (www.smartcapitalservices.in) तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट अर्थात् ( www.msei.in)

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 29.10.2020

यदि कोई हो, केवल ऊपर वर्णित वेबसाईटों पर ही प्रकाशित होगी।

अनुमोदन किये जाएंगे।

dia.com पर भी उपलब्ध है। स्थानः नई दिल्ली तिथि: 29 अक्टूबर, 2020

अर्थात (www.shreeworstex.in) तथा स्टॉक

पवन कमार मित्तल स्थानः नर्ड दिल्ली ( निदेशक

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(क) के मामले में

सन्दर्भ में संगम जापन के अवस्थिति उपबन्ध के परिवर्तन की पष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन करने

की तिथि से 14 दिनों के भीतर दे सकता है, सुपूर्व कर सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकत है तथा आवेदन की एक प्रति कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजनी होगी।

Email ID: smartcap.delhi@gmail.com Website: www.smartcapitalservices.in

अनमोदन किये जाएंगे।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से स्काई बॉक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये पवन कुमार मित्तल (निदेशक)

DIN: 00749265